

इको नविसा संहति 2018

संदर्भ

हाल ही में वदियुत मंत्रालय ने इको नविसा संहति, 2018 (रहियशी इमारतों हेतु ऊर्जा संरक्षण इमारत संहति ECBC-R) की शुरुआत की है। इस संहति के कार्यान्वयन से 2030 तक सालाना 125 अरब यूनिट बजिली की बचत होने की संभावना है जिससे लगभग 100 मिलियन टन कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा।

महत्त्वपूर्ण बदि

- इस संहति को लागू करने से रहियशी क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य ऐसे अपार्टमेंट और नगरों का डिजाइन तैयार करना तथा उनके निर्माण को बढ़ावा देना है जिनमें रहने वालों को ऊर्जा की बचत का लाभ मिल सके।
- इस संहति को बिल्डिंग मैटीरियल आपूर्तिकर्त्ताओं, डेवलपर, वास्तुकारों और विशेषज्ञों सहित सभी साझेदारों के साथ वसितृत वचिर-वमिरश के बाद तैयार कया गया है।
- संहति में सूचीबद्ध मानदंडों को जलवायु और ऊर्जा संबंधी आँकड़ों का इस्तेमाल करते हुए अनेक मानदंडों के आधार पर वकिसति कया गया है।
- आरंभ में संहति के पहले भाग की शुरुआत ऊर्जा बचत वाली रहियशी इमारतों के डिजाइन तैयार करने हेतु की गई है जिसमें इमारत के अंदर के हसिसे को शुष्क, गर्म और ठंडा रखने हेतु इमारत के बाहरी हसिसे की नीव के लिये न्यूनतम मानक नरिधारति कयि गए हैं।
- उम्मीद है कि इस संहति से बड़ी संख्या में वास्तु-शलिपयों और बलिडरों को सहायता मलिगी जो देश के वभिनिन भागों में नए रहियशी परसिरो के डिजाइन तैयार करने तथा उनके नरिमाण कार्य में शामिल हैं।
- ऊर्जा संरक्षण इमारत संहति (ECBC-R) की सहायता से आने वाले 10-15 वर्षों में इमारत नरिमाण क्षेत्र में ऊर्जा की मांग में आने वाली वृद्धिसे नपिटा जा सकेगा।
- सरकार नए रहियशी घरों का नरिमाण करते समय वास्तुकारों, बलिडरों सहित इमारत से जुड़े कार्य में लगे सभी पेशेवरों को ऊर्जा संरक्षण की दशिा में जागरूकता पैदा करने के लिये प्रोत्साहति कर रही है।
- वदियुत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के सहयोग से हर वर्ष 14 दसिंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दविस मनाता है।
- ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की दशिा में उद्योग और अन्य प्रतषिठानों के परयासों को मान्यता देने के लिये वदियुत मंत्रालय हर वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दविस के अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कार्यक्रम आयोजति करता है।
- इस अवसर पर वभिनिन क्षेत्रों की 26 औद्योगकि इकाइयों को ऊर्जा दक्षता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये पुरस्कार दयि जाते हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)

- भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधनियिम, 2001 के उपबंधों के अंतरगत 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण अधनियिम, 2001 के समग्र ढाँचे के अंदर स्व-वनिियिमन और बाजार सदिधांतों पर महत्त्व देते हुए ऐसी नीतयों और रणनीतयों के वकिस में सहायता प्रदान करना है जनिका प्रमुख लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना है।

स्रोत- पीआई बी